



गाड़ी चुराकर पार्टस बेंचने वाला गैंग दबोचा

-वाहन चुराने के पहले कई बार करते थे रेकी

-अभियुक्तों के पास से चोरी के कई वाहन बरामद

-कई चोरी के कटे वाहनों के पार्टस भी बरामद

-पकड़े गये अभियुक्तों से हो रही चोरी की घटना के बारे में पूछताछ

कानपुर: पुरानी और कई दिनों से एक ही स्थान पर खड़ी गाड़ियों को चुराना और उसे कटवाकर गाड़ी के पार्टस बेंचने वाले गिरोह को थाना रायपुरवा पुलिस ने दबोच लिया। वाहन चेकिंग के दौरान दबोचे गये गैंग के तीन सदस्यों की निशानदेही पर बड़ी संख्या में चोरी के वाहन और उनके पार्टस बरामद हुए हैं। पुलिस गैंग के सदस्यों से अब तक की गई चोरी की घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।

अब तक की जांच एवं पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गये अभियुक्तों में से विजय सिंह पुत्र स्व० जय करन सिंह नि० 85/170 लक्ष्मीपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर जगह-जगह जाकर पुरानी गाड़ियों की रेकी करता था। उसके बाद अंशुल मिश्रा उर्फ मोहित मिश्रा पुत्र स्व० हरीकृष्ण मिश्रा नि० वार्ड न०-07 बरुआ नगर थाना-कोतवाली देहात जिला भिण्ड मध्यप्रदेश को जानकारी देता था। वह उस स्थान पर जाकर गाड़ियों में मास्टर चावी मिलाकर उठा लेते थे एवं विवेक कुमार उर्फ लल्ला पुत्र स्व० शिवपाल नि० ग्राम पूर्वादान सहार थाना सहार जिला औरैया के माध्यम से चोरी की गयी गाड़ी के पुर्जे खुलवाकर बाजार में बेचते थे। अभियुक्तों को थाना रायपुरवा पुलिस ने मंगलवार सुबह समय 05.05 बजे अनवरगंज स्टेशन के सामने जी०टी० रोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान दबोचा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विजय सिंह पुत्र स्व० जय करन सिंह नि० 85/170 लक्ष्मीपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर उम्र 42 वर्ष.
2. अंशुल मिश्रा उर्फ मोहित मिश्रा पुत्र स्व० हरीकृष्ण मिश्रा नि० वार्ड न०-07 बरुआ नगर थाना-कोतवाली देहात जिला भिण्ड मध्यप्रदेश हाल पता 85/170 लक्ष्मीपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर उम्र-27 वर्ष.
3. विवेक कुमार उर्फ लल्ला पुत्र स्व० शिवपाल नि० ग्राम पूर्वादान सहार थाना सहार जिला औरैया उम्र 31 वर्ष

बरामद मोटरसाईकिल व खुले पार्टस

1. मो0सा0 UP-78 CK 0880 हीरो पेशन प्रो काले रंग की है।
2. UP78Y5490 जिसका चेसिस न0- 99L19C16304 व इंजन न0 99L17M16627 स्पेलण्डर काली व नीले रंग की है।
3. UP78AS1124 जिसका चेसिस न0-04D09C21084 व इंजन न0 04D08M21099 हीरो होण्डा पेशन प्रो लाल रंग की है।
4. बिना न0 प्लेट की पेशन प्रो काले रंग की अर्द्ध खुली जिसका चेसिस न0 MBLHA10A6DHM053 इंजन न0 HA10ENDHM76169 है।
5. बिना न0 प्लेट की पेशन प्रो काले रंग की है जिसके पुर्जे-पुर्जे अलग-अलग खुली हुयी है जिसका चेसिस न0 घिसा हुआ है व इंजन न0 HA10PNCHJ19630 है।
6. एक अदद इंजन जो काले रंग का है जो हीरो पेशन प्रो का प्रतीत हो रहा है जिसका इंजन न0 HA10AEJHL56415।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1 मु0अ0स0 08/2023 धारा 379 भा0दा0वि0 थाना ग्वालटोली

2 मु0अ0स0 03/2023 धारा 411, 413, 420, 467, 468, 471 भा0दा0वि0 थाना रायपुरवा

गिरफ्तार एवं बरामद करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अमान सिंह, उ0नि0 रविन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 देवेन्द्र सिंह, हे0का0 अब्दुल शालिम, का.संदेश कुमार, कां. आकाश सिंह शामिल रहे।